


जल सुरक्षा प्रति समझदार बनें




माता-पिता वाली अपने निपुण दृष्टिकोण का उपयोग करें! पानी के आसपास हर समय सक्रिय रूप से बच्चों की निगरानी करें।



सुनिश्चित करें कि बच्चे तैराकी और जल सुरक्षा के कौशल सीखें - उन्हें रेड क्रॉस तैराकी कोर्स में दाखल करवाएँ!



कम अनुभवी और तैराकी न जानने वाले बच्चों को सदैव पानी के अंदर, इस पर और इस के इर्द-गिर्द लाइफ़ जैकेट पहननी चाहिए।



कृपया पूल डेक से सभी खिलौनों और मलबे को साफ रखें।




बाथटब या हवा से फुलाने वाले पूल? हर समय अपने बच्चों के साथ रहें! उपयोग में न होने पर इन्हें खाली कर दें।



पूल में लाइफ़गार्ड प्रभारी होता है - पोस्ट किए गए नियमों का पालन करें और हमेशा वही करें जो लाइफ़गार्ड कहता है!



माता-पिता, अपनी तैराकी वाले सूट पहनें! बच्चों को हमेशा हाथ की पहुंच के भीतर होना चाहिए।



बच्चों को "रुकों देखो! धीरे चलो!" के बारे में याद दिलाएँ - और पानी में उतारते समय पैर पहले रखें।



तैराकी सीखना जानें बचाता है! शिक्षण प्राप्त करने के लिए आज ही अपने स्थानीय पूल से संपर्क करें।

Redcross.ca/swim | 1.877.356.3226